



FIROZABAD POLICE

“सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



सराहनीय कार्य दिनांक 14-01-2023 थाना सिरसागंज, फिरोजाबाद ।

थाना सिरसागंज पुलिस टीम की बड़ी सफलता, मु0अ0सं0 760/21 धारा 302 भादवि में 02 वर्ष से फरार चल रहे 25-25 हजार रूपये के दो इनामियाँ अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा जघन्य अपराधों में लिप्त अभि0गण के विरुद्ध प्रचलित अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण,फिरोजाबाद के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के निकट पर्यवेक्षण में सफल अनावरण करते हुए वांछित/इनामी अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया । थाना हाजा पर दिनांक 14.12.2021 को आवेदक श्री ध्रुव सिंह पुत्र सुभाष सिंह ग्राम सूरज नगर पोस्ट चित्राहट जिला आगरा ने आकर के सूचना दी कि उसके पिता पिता दिनांक 13.12.2021 को घर से यह कहकर कि जेल में बन्द अपने रिस्तदारों से फिरोजाबाद मिलाई करने जा रहे हैं, दिनांक 14.12.2021 को उसके परिवार को सोशल मीडिया पर वायरल फोटो देखने से जानकारी हुयी थी कि उसके पिता सुभाष सिंह की हत्या करके उनके शव को सिरसागंज थाना क्षेत्र के ग्राम नगला भवगन्त के पास झाड़ियों में डाल दिया है। सूचना प्राप्त होने पर शव की पहिचान आवेदक के पिता सुभाष सिंह के रूप में हुई और परिवारीजनों ने मु0अ0सं0 0760/21 धारा 302 भादवि बनाम 1. रिकू यादव पुत्र अजब सिंह निवासी चन्द्रहंस की मढैया थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद 2. रिकू का साला कल्लू पुत्र महेन्द्र निवासी गोकुलपुर निवासी तिलियानी थाना करहल जिला मैनपुरी 3. महेन्द्र सिंह के दो और बेटे नाम पता नामालूम निवासी गोकुलपुर तिलियानी के विरुद्ध पंजीकृत कराया था । दौराने विवेचना प्रत्येक बिन्दू व तथ्यों पर गहनता से जांच की गई तथा नामजद उपरोक्त की नामजजगी गलत पायी गयी व अभि0 1.रिषीपाल पुत्र अजब सिंह निवासी चन्द्रहंस की मढैया थाना खंगर जिला फिरोजाबाद , 2 अजब सिंह पुत्र नथतू सिंह निवासी चन्द्रहंस की मढैया थाना खंगर जिला फिरोजाबाद 3.नीलेश पुत्र सोहनवीर सिंह निवासी चन्द्रहंस की मढैया थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद 4 राजा उर्फ पप्पू पुत्र रामेश्वर निवासी वीरई थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद के नाम प्रकाश में आये, जिसमें से अभि0गण 1.रिषीपाल 2 अजब सिंह उपरोक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है व घटना से समय से ही अभि0 नीलेश व राजा उर्फ पप्पू बादस्तूर फरार थे, जिन पर 25000-25000 रू0 का पुरूष्कार घोषित था । दिनांक 13.01.2023 को पुलिस बल को मुखविर द्वारा आकर के सूचना दी कि आपके थाने पर पंजीकृत हत्या के मुकदमे के 02 वांछित अभियुक्तगण जिन पर 25000- 25000 रू0 का इनाम है, यदि अगर जल्दी की जाए तो दोनो को पकडा जा सकता है की सूचना पर 1. अभि0 नीलेश यादव पुत्र सोनवीर निवासी चन्द्रहंस की मढैया थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद व 2. राजा उर्फ पप्पू पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी बीरई जहानाबाद थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया । जिनसे पूछताछ से यह तथ्य सामने आया कि मुकदमा उपरोक्त की घटना जिला कारागर फिरोजाबाद मे निरुद्ध रिषीपाल ने अपने खिलाफ थाना नगला खंगर पर दहेज हत्या मे समझौते के लिये दवाब बनाने के लिये अपने पिता अजब सिंह के साथ षडयन्त्र करके मिलाई के बहाने मृतक सुभाष को बुलाकर अपने साथी अभि0 नीलेश पुत्र सोहनवीर सिंह निवासी चन्द्रहंस की मढैया थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद व राजा उर्फ पप्पू पुत्र रामेश्वर निवासी वीरई थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद से वादी के पिता सुभाष चन्द्र पुत्र साहब सिंह निवासी सूरजनगर थाना चित्राहाट जिला आगरा की हत्या करवाकर शव को सिरसागंज के क्षेत्र सराय सेख के पास नगला भगवन्त के जंगल मे

फिकवा दिया था। हत्या के बाद उपरोक्त दोनो लोग अपनी पहिचान छिपाकर के अपना ठिकाना बदल-बदल के रहने लगे थे। उपरोक्त दोनो अभि० पिछले 02 वर्षों से वांछित थे। आवश्यक कार्यवाही हेतु मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. नीलेश पुत्र सोहनवीर सिंह निवासी चन्द्रहंश की मढैया थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद
2. राजा उर्फ पप्पू पुत्र रामेश्वर निवासी वीरई थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

1. नीलेश पुत्र सोहनवीर सिंह निवासी चन्द्रहंश की मढैया थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद
मु०अ०सं० 132/20 धारा 498ए/304बी/201 भादवि व 3/4 द०प्र०अधिनियम थाना नगला खंगर फिरोजाबाद
मु०अ०सं० 027/22 धारा 33/25 आर्म्स एक्ट थाना सिरसागंज फिरोजाबाद
मु०अ०सं० 760/21 धारा 302/201/120 बी भादवि सिरसागंज फिरोजाबाद
2. राजा उर्फ पप्पू पुत्र रामेश्वर निवासी वीरई थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद
मु०अ०सं० 760/21 धारा 302/201/120 बी भादवि सिरसागंज फिरोजाबाद

अनावरण / गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक उदयवीर सिंह मलिक थाना सिरसागंज
2. उ०नि० नितिन कुमार त्यागी एसओजी प्रभारी फिरोजाबाद
3. व०उ०नि० मो० खालिद थाना सिरसागंज फिरोजाबाद
4. है०का० 43 महेन्द्र कटियार थाना सिरसागंज
5. का० 787 नीतेन्द्र कुमार थाना सिरसागंज
6. का० 97 राहुल कुमार थाना सिरसागंज
7. है०का० 0553 विजय कुमार एसओजी फिरोजाबाद
8. है०का० 0326 अनिल कुमार एसओजी फिरोजाबाद
9. है०का० 469 जयनरायन एसओजी फिरोजाबाद
10. का० 920 सन्दीप कुमार एसओजी फिरोजाबाद
11. का० 1384 प्रवीन कुमार एसओजी फिरोजाबाद